



CIN:L51395HP1985PLC012209

BCC FUBA INDIA LIMITED

Corporate Office: House No.97 4th Floor
Bahubali Enclave, Near Ram Mandir,
opp. Cross River Mall, Delhi - 110092, India
P: +91-11- 49287223
E: delhi@bccfuba.com



Date: 12.08.2024

The Manager,
Corporate Relationship Department,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001

Scrip Code: 517246
Security Id: BCCFUBA

Subject: - Public Notice (Newspaper Advertisement) after sending the notices and copies of the financial statements of 38th Annual General Meeting

Dear Sir,

In terms of General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”), the Company has given a public notice by way of advertisement in newspaper after sending the notices and copies of financial statements of 38th Annual General Meeting of the company and as per the provisions of Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the notice published in the following newspapers:

- Financial Express (National daily newspaper- All English Edition), on 11th August 2024.
- Jansatta (Daily newspaper- Hindi Edition), Himachal Pradesh on 11th August 2024.

This is for your kind information and records.

Thanking you.
Yours faithfully,

For B C C Fuba India Limited

Abhinav Bhardwaj
Director
DIN 06785065
Address : 4/61, Ist Floor, Roop Nagar
Malka Ganj S.O, North Delhi 110007

Encl: As above.

SIRCA PAINTS INDIA LIMITED

CIN : L24219DL2006PLC145092
Registered & Corporate Office: G-82, Kirti Nagar, New Delhi-110015, **Tel:** +91-11- 42083083
Website: https://sircapaints.com/ **Email:** cs@sircapaints.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) OF THE COMPANY FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

(Figures in Lacs except EPS)

Sr. No.	PARTICULARS	STANDALONE			
		Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1.	Total Income from Operations	8,010.05	8,472.11	7,443.32	31,808.03
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	1,392.59	1,678.76	1,756.23	6,906.56
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	1,392.59	1,678.76	1,756.23	6,906.56
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	1,020.83	1,251.18	1,290.32	5,143.72
5.	Total Comprehensive Income for the period	1,020.83	1,248.73	1,290.32	5,141.27
6.	Equity Share Capital	5,480.88	5,480.88	5,480.88	5,480.88
7.	Other Equity	26,411.76	25,390.93	22,362.11	25,390.93
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)				
	1. Basic: (not annualised)	1.86	2.28	2.35	9.38
	2. Diluted: (not annualised)	1.86	2.28	2.35	9.38

(Figures in Lacs except EPS)

Sr. No.	PARTICULARS	CONSOLIDATED			
		Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1.	Total Income from Operations	8,010.05	8,472.11	7,443.32	31,808.03
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	1,392.55	1,678.76	1,755.97	6,906.08
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	1,392.55	1,678.76	1,755.97	6,906.08
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	1,020.80	1,251.18	1,290.12	5,143.36
5.	Total Comprehensive Income for the period	1,020.80	1,248.73	1,290.12	5,140.92
6.	Equity Share Capital	5,480.88	5,480.88	5,480.88	5,480.88
7.	Other Equity	26,408.28	25,387.49	22,358.83	25,387.49
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)				
	1. Basic: (not annualised)	1.86	2.28	2.35	9.38
	2. Diluted: (not annualised)	1.86	2.28	2.35	9.38

NOTES:
1. The above is an extract of the detailed format of Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Company's website (www.sircapaints.com) and on the website of the Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com & www.bseindia.com.
2. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meeting held on August 10, 2024.

For SIRCA PAINTS INDIA LIMITED
Sd/-
Sanjay Agarwal
Chairman Cum Managing Director
(DIN: 01302479)

Date : 10/08/2024
Place : Delhi

SHAMKEN MULTIFAB LIMITED (IN LIQUIDATION)

PUBLIC NOTICE
Seeking Information Regarding Plot having Khasra No. 319, GT Road, Village Kotwan, Tehsil Chhatta, Mathura, Uttar Pradesh

The undersigned, being the Liquidator in the liquidation matter of Shamken Multifab Limited, appointed by Hon'ble NCLT, Allahabad vide order dated 01.06.2023, found an additional property i.e., "Land at Khasra No. 319, GT Road, Village Kotwan, Tehsil Chhatta, Mathura, Uttar Pradesh (8,490 sq meters)."
Notice is hereby given to public to invite any information/objection or relevant documents about the ownership title of the aforementioned property. Please contact before 19-08-2024, otherwise the property will be auctioned as per applicable law and no objection will be entertained thereafter.

Sd/-
Sanjay Gupta, Liquidator
IP Regd No. IBB/I/PA-001/1P-P00117/2017-2018/10252
Contact : Wasim/Raj Kumar: +91-8800865284
assetsale1@aaainsolvency.in, shamkenmultifab.cirp@gmail.com

Date: 11-08-2024
Place: New Delhi

P R HOLDINGS LIMITED

CIN: L27310DL1983PLC314402
Regd. Office: R-489, GF-C, New Rajinder Nagar, Delhi - 110060
Tel: 011-42475489, Email: prholding1983@gmail.com, Website: www.prholdings.in
STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2024

(Rs. in thousands)

Particulars	Quarter ended		Three Months ended		Year Ended 31.03.2024
	Quarter ended 30.06.2024	Preceding Quarter Ended 31.03.2024	Quarter Ended 30.06.2023	Three Months ended 30.06.2023	
	Un-audited	Audited	Un-audited	Un-audited	
I Revenue from Operations	0.00	600.00	150.00	0.00	150.00
Income from Consultancy Business	31.72	7,060.97	768.35	31.72	768.35
Other Income/Receipts	31.72	7,660.97	918.35	31.72	918.35
II Total Revenue (I+II)					
III Expenses:					
Employee benefits expense	189.70	181.50	174.00	189.70	174.00
Finance costs	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
Depreciation and amortization expense	2.75	7.53	7.53	2.75	7.53
Other expenses	95.00	141.07	110.25	95.00	110.25
Total Expenses	287.51	310.10	291.78	287.51	291.78
IV Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)	(255.78)	7,350.87	626.57	(255.78)	626.57
Exceptional items	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V Profit before extraordinary items and tax (V-VI)	(255.78)	7,350.87	626.57	(255.78)	626.57
VI Profit after tax (VII-VIII)	(255.78)	7,350.87	626.57	(255.78)	626.57
VII PROFIT BEFORE TAX (VII-VIII)	(255.78)	7,350.87	626.57	(255.78)	626.57
VIII Tax Expense:					
(1) Current Tax	0.00	307.17	0.00	0.00	307.17
(2) Deferred Tax	0.00	981.94	0.00	0.00	981.94
IX Profit/(Loss) for the period from continuing operations (IX-X)	(255.78)	6,061.76	626.57	(255.78)	626.57
X Profit/(Loss) from discontinuing operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XI Tax Expense of discontinuing operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XII Profit/(Loss) from discontinuing operations (after tax) (XII-XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XIII Profit/(Loss) for the period (XII+XIV)	(255.78)	6,061.76	626.57	(255.78)	626.57
XIV Other Comprehensive Income	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XV Total Comprehensive Income	(255.78)	6,061.76	626.57	(255.78)	626.57
XVI Earning per Share (for continuing and discontinuing operations) (Equity share of par value of Rs.10 each)					
Basic	(0.14)	3.21	0.33	(0.14)	0.33
Diluted	(0.14)	3.21	0.33	(0.14)	0.33

NOTES:-
1. No investor's complaint was received & No complaint pending at the beginning or end of Quarter / Year
2. Results were taken on record by Audit Committee & Board of Directors in meetings held on 10.08.2024
3. Shares stand Listed at BSE & CSE.
4. Previous Year's Quarterly figures have been regrouped / rearranged, wherever necessary.
5. Paid-up Capital = 18,90,000 equity shares of Rs. 10/- = Rs. 1,89,00,000/-

For P R HOLDINGS LIMITED
Sd/-
Sakshi Gupta -WTD & CFO
(DIN: 09773654)

Date: 10-08-2024
Place: New Delhi

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that share cert. no. 979357 to 979359, dist. no. 39250154 to 39250303 for 150 sh under Folo no. ESC032411 in name of Anil Bhatnagar and Shubra Bhatnagar issued by Esports Kubota Ltd. have been lost & we have applied to Company to issue duplicate certs. Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge such claim with the Co. at its Regd. Off at 15/5, Mathura Road, Faridabad - 121003, Haryana within 15 days from this date, else the Co. will proceed to issue duplicate certs. without further intimation.

AMIT BHATNAGAR AND SHUBRA BHATNAGAR

ASSOCIATED FINMAN LIMITED

Regd. Office: 5B/17, Ground Floor, Bahadur Apartments New Rastak Road New Delhi-110005
Email: info@associatedfinman1984@gmail.com; **Tel No.:** +91 1132963621
CIN: L65910DL1984PLC018871; **Website:** www.associates.net.in

Statement of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024

(Rs. in hundreds)

Particular	3 Months ended 30.06.2024		Corresponding 3 Months ended in the previous year 30.06.2023	
	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited
Total income from operations (net)	-	-	-	-
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(256.58)	-	(1717.54)	-
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(256.58)	-	(1717.54)	-
Paid-up Equity Share Capital	90532.80	90532.80	90532.80	90532.80
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	92574.94	-	-	-
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each): Basic & Diluted (in Rupees)	(0.00)	-	(0.00)	-
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each): Basic & Diluted (in Rupees)	(0.00)	-	(0.00)	-

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange website: www.mseil.in

For Associated Finman Limited
Sd/-
Dhiraj Gupta
Chairman & Managing Director
(DIN: 02322266)

Place: New Delhi
Date: 10.08.2024

DECOROUS INVESTMENT AND TRADING COMPANY LTD.

CIN: L67120DL1982PLC289090
Regd. Office: R-489, GF-B, New Rajinder Nagar, New Delhi - 110060
Tel: 9910003638, Email: decorous1982@gmail.com, Website: www.ditco.com
STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2024

(Rs. in thousands)

Particulars	Quarter ended		Three Months ended		Year Ended 31.03.2024
	Quarter ended 30.06.2024	Preceding Quarter Ended 31.03.2024	Quarter Ended 30.06.2023	Three Months ended 30.06.2023	
	Un-audited	Audited	Un-audited	Un-audited	
I Revenue from Operations	0.00	2,775.18	300.00	0.00	300.00
Other Income/Receipts	549.88	574.37	490.18	549.88	490.18
II Total Revenue (I+II)	549.88	3,349.55	790.18	549.88	790.18
III Expenses:					
Purchase of Stock-in-Trade	0.00	2,200.25	0.00	0.00	2,200.25
Employee benefits expense	199.00	174.00	244.00	199.00	244.00
Finance costs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciation and amortization expense	0.44	0.70	0.44	0.44	0.70
Other Expenses	152.30	195.63	179.03	152.30	179.03
Total Expenses	351.74	2,570.57	423.72	351.74	423.72
IV Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)	198.13	779.28	366.46	198.13	366.46
Exceptional items	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V Profit before extraordinary items and tax (V-VI)	198.13	779.28	366.46	198.13	366.46
VI Profit after tax (VII-VIII)	198.13	779.28	366.46	198.13	366.46
VII PROFIT BEFORE TAX (VII-VIII)	198.13	779.28	366.46	198.13	366.46
VIII Tax Expense:					
(1) Current Tax	0.00	484.21	0.00	0.00	484.21
(2) Deferred Tax	0.00	1.98	0.00	0.00	1.98
IX Profit/(Loss) for the period from continuing operations (IX-X)	198.13	293.09	366.46	198.13	366.46
X Profit/(Loss) from discontinuing operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XI Tax Expense of discontinuing operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XII Profit/(Loss) from discontinuing operations (after tax) (XII-XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XIII Profit/(Loss) for the period (XII+XIV)	198.13	293.09	366.46	198.13	366.46
XIV Other Comprehensive Income	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XV Total Comprehensive Income	198.13	293.09	366.46	198.13	366.46
XVI Earning per Share (for continuing and discontinuing operations) (Equity share of par value of Rs.10 each)					
Basic	0.057	0.085	0.106	0.057	0.106
Diluted	0.057	0.085	0.106	0.057	0.106

NOTES:-
1. No investor's complaint was received & No complaint pending at the beginning or end of Quarter / Year
2. Results were taken on record by Audit Committee & Board of Directors in meetings held on 10.08.2024
3. Shares stand Listed at BSE & CSE.
4. Previous Year's Quarterly figures have been regrouped / rearranged, wherever necessary.
5. Paid-up Capital = 34,50,000 equity shares of Rs. 10/- = Rs. 3,45,00,000/-

For Decorous Investment & Trading Company Ltd.
Raj Kumar Gupta -WTD & CFO
(DIN: 00074532)

Date: 10-08-2024
Place: New Delhi

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ

...the name you can BANK upon!

CIRCLE SASTRRA CENTRE, CIRCLE OFFICE BULANDSHAHR E Mail: - CS8212@pnb.co.in PH NO: 8171640088

Whereas The undersigned being the Authorised Officer of the Punjab National Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13 read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice/s as mentioned below table calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned in the table within 60 days from the date of notice(s) date of receipt of the said notice(s).
The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002. The borrower's/guarantor's/mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets. The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealing with the properties will be subject to the charge of Punjab National Bank for an amount and other expenses until payment in full.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES:

S. No.	Name of the Branch	Name of the Account Borrower / Guarantor	Description of the property mortgaged	Date of demand notice	Date of possession notice affixed	Amount Outstanding as on the date of demand Notice.
1.	Yamuna puram	M/s Uvesh Trader Prop Sh Nisar S/o Babu Khan A/C no 456800JH00001745	One residential house no -1B , Part of Khet no 221-234 in the name of Sh Nisar S/o Babu Khan , situated at Heerapur (Anand Vihar Colony) measuring 26.77 Sq mtr registered vide sale deed Bahi no 1, Zild no 4647, Page no 355-378 st Sr no 4761 dated 27.06.2016 at sub registrar office, Bulandshahr. ***Property details as per title deed***	22.08.2024	05.08.2024	Rs. 11,60,741.06 (Rs. Eleven Lakh Sixty Thousand Seven Hundred Forty One and Six Paise Only) + Other cost and expenses
2.	Yamuna puram	Sh Sharad Trivedi S/o Late Sh Mahesh Chand Trivedi & Smt Roopali Trivedi W/o Sh Sharad Trivedi A/C no 666100NC00003157, 666100NC00003449 & 666100NC00000463	Commercial cum residential property located at 4/C-1/8 Awaz Vikas 1st, Avanti Nagar, Bulandshahr 203001 having area 241.44 Sqmtr. In the name of owner Sh Sharad Trivedi S/o Mahesh Chand & Smt Roopali Trivedi W/o Sharad Trivedi and registered at sale deed dated 24/01/2012, Bahi no 1, Zild no 5160, Pages 43 to 78, Sr no 505 at sub registrar office no 1, Bulandshahr. ***Property details as per title deed***	20.03.2024	05.08.2024	Rs. 44,69,890.64 (Rs. Forty Four Lakh Sixty Nine Thousand Eight Hundred Ninety and Sixty Four Paise Only) + Interest + Other cost and expenses
3.	UBI Buland Sahar	M/s Shri Shyam Saree Collection Prop Bina Agarwal A/C no 1450250001083 & 145020EG00000138	Residential/Commercial house no 119/121 area measuring 58.50 sq mtr situated at Mohalla Satha, Nagar -Bulandshahr in the name of Surjavit W/o Ved Prakash. Boundaries as below: East: Gali/House Ikram, North: Sadak Sarkari West: House Master Chandrasain, South: House Hameed Khan ***Property details as per title deed***	07.06.2024	05.08.2024	Rs. 31,63,891.59 (Rs. Thirty One Lakh Sixty Three Thousand Eight Hundred Ninety One and Fifty Nine Paise Only) + Int. wef. 01.05.2024 + Other cost and expenses
4.	OBC Sikandra bad	Shri Yunus Khan A/C 08416011000229	Equitable Mortgage of House no 143, 572 Beesa Colony Mukhera Bulandshahr UP 203001 total area 50.19 Sqmt situated at Sirauli Beesa Colony Distt Bulandshahr registered at SRO Bulandshahr vide Book no 1, Khand no 7358, Pages 107-130, Sr no 6855 dated 12/10/2018 Bounded as below: EAST: Plot Rashidun Begum, WEST: Plot Mohd Shafi, NORTH: Plot Shakeel Ahmed, SOUTH: Rasta 7.62 mtr wide ***Property details as per title deed***	02.05.2024	05.08.2024	Rs. 14,57,062.31 (Rupees Fourteen Lakh Fifty Seven Thousand Sixty Two and Thirty One Paise Only) + int. wef. 01.05.2024 + Other cost and expenses.

Date: 05.08.2024, Place: Bulandshahr
Authorized Officer, For Punjab National Bank, Circle SASTRRA Head (Chief Manager)

POSSESSION NOTICE

[Rule 8(1) Read with Section 13(4)]

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

VIRTUAL GLOBAL EDUCATION LIMITED

CIN: L67120DL1993PLC052256
Regd. Off.: 812, Aggarwal Cyber Plaza-1, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034
Contact No.: 011-41522143, **E-mail:** info@virtualeducation.co.in

UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 30th JUNE, 2024

(Amount in Lacs except EPS)

PARTICULARS	Quarter Ended		Year Ended	
	30-Jun-24 Unaudited	31-Mar-24 Audited	30-Jun-23 Unaudited	31-Mar-24 Audited
Total Income from operations	26.28	4.05	19.32	67.06
Net Profit/(Loss) Before Exceptional and Extraordinary Items and Tax	(4.28)	(183.78)	7.	

